



SBI CLERK 2023



DAY-5

आधार Batch

Order & Ranking

सीखो सबकुछ ZERO से
REASONING

LIVE

12:00 PM



Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

A few boys are sitting in a row. Prateek is sitting fifteenth from the left and Rahul is the tenth boy from the right. If there are five boys between Prateek and Rahul, how many boys are there in the row?

कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। प्रतीक बाएं से पंद्रहवां और राहुल दाएं से दसवें स्थान पर बैठा है। यदि प्रतीक और राहुल के बीच पांच लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं?

- 1) 29
- 2) 31
- 3) 33
- 4) 30
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

There are 62 boys standing in a row. Rohan is 13th from the left and Shekhar is 16th from the right. If they interchange their positions, what will be the new position of Rohan from the left?

एक पंक्ति में 62 लड़के खड़े हैं। रोहन बाएँ से 13वें और शेखर दाएँ से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं, तो बाएँ से रोहन का नया स्थान क्या होगा?

- 1) 46
- 2) 47
- 3) 48
- 4) 45
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

If in a row, Shonali is 22nd from the left end and Arjun is 17th from the right end, and there are 7 persons in between Shonali and Arjun, then find the maximum number of persons in the row?

यदि एक पंक्ति में, शोनाली बाएं छोर से 22वें स्थान पर है और अर्जुन दाएं छोर से 17वें स्थान पर है और शोनाली तथा अर्जुन के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- 1) 45
- 2) 50
- 3) 46
- 4) 49
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Pankaj is 14th from the top while Piyush is 12th from the bottom in the class ranking. If they interchange their positions, then Piyush becomes 22nd from the bottom. What will be the position of Pankaj from the top?

पंकज कक्षा श्रेणी में ऊपर से चौदहवें जबकि पीयूष नीचे से बारहवें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लें, तो पीयूष नीचे से बाईसवें स्थान पर आ जाता है। पता लगाएँ की ऊपर से पंकज का स्थान क्या होगा?

- 1) 23rd / तेईसवां
- 2) 22nd / बाईसवां
- 3) 25th / पच्चीसवां
- 4) 24th / चौबीसवां
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Ramesh is 15th from either end of a row of boys. The number of boys in the row is?

रमेश लड़कों की एक पंक्ति के दोनों में से किसी भी छोर से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कों की संख्या है?

- 1) 25
- 2) 29
- 3) 30
- 4) 31
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Kapil is a student of 12th class. In his class, his position is 14th from the top and 48th from the bottom. What is the total number of the students in the class?

कपिल 12वीं का छात्र है। उसकी कक्षा में उसका स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 48वां है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

- 1) 63
- 2) 64
- 3) 61
- 4) 62
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

If the position of Rohit from the left side of a row is 10th and position of Rahul from the right side of a row is 16th and there are 6 persons in between them in a row. Find the total number of people in the row?

यदि रोहित की स्थिति एक पंक्ति के बाईं ओर से 10वीं और राहुल की स्थिति एक पंक्ति के दाईं ओर से 16वीं है और उनके बीच पंक्ति में 6 लोग हैं। पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिये?

- 1) 31
- 2) 30
- 3) 18
- 4) 17
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

In a row of 42 men, if Rahul is shifted by 10 places towards the left, he became 30th from the left end. What was her earlier position from right end of the row?

42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यदि राहुल बाईं ओर 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है, तब वह बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाहिने छोर से उसका पूर्व स्थान कौन सा था?

- 1) 3rd / तीसरा
- 2) 2nd / दूसरा
- 3) 4th / चौथा
- 4) Cannot be determined. / निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Sam ranks 17th from the top in a class of 60 students. What is his rank from the bottom?

60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सैम शीर्ष से 17वें स्थान पर है। नीचे से उसका स्थान क्या है?

- 1) 45
- 2) 44
- 3) 43
- 4) 41
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

In a row of 16 boys, when Girish was shifted by two places to the left, he became 7th from the left end. What was his earlier position from the right?

16 लड़कों की एक पंक्ति में, जब गिरीश को बाएं दो स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो वह बाएं छोर से सातवें स्थान पर आ जाता है। दायें से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी?

- 1) 6th / छठी
- 2) 8th / आठवीं
- 3) 10th / दसवीं
- 4) 11th / ग्यारहवीं
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Raju studies in 7th standard. In a test he got 15th rank from the last. And there were 20 people between Raju and his friend Ravi whose ranks were in between that of Ravi and Raju. If Ravi's rank was 45 in the class from front, then maximum number of students in the class will be?

राज सातवीं कक्षा में पढ़ता है। एक जाँच-परीक्षा में उसे आखिरी से 15वाँ क्रमांक मिला और राज और उसके दोस्त रवि के बीच 20 लोग थे जिनकी जाँच-परीक्षा का क्रमांक रवि और राज के बीच में था। यदि रवि का क्रमांक कक्षा में सामने से 45 था, तो कक्षा में अधिकतम कितने छात्र होंगे?

- 1) 55
- 2) 38
- 3) 66
- 4) 80
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

In a row, A is 19th from front. B is 18th from back. C is standing between two of them, then what could be the minimum number of persons between them?

एक पंक्ति में, A आगे से 19वें स्थान पर है। B पीछे से 18वें स्थान पर है। C उन दोनों के बीच में खड़ा है, तो उनके बीच खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है?

1) 1

2) 5

3) 2

4) Data insufficient / अपर्याप्त

जानकारी



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Students are sitting in a row in which the position of X is 17th from the left and that of Y is 14th from the right. If they interchange their positions, X's position becomes 7th from the left. How many students are there in the row?

कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें बाईं ओर से X सत्रवें स्थान पर है और Y दाईं ओर से चौदहवें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, तब X बाईं ओर से सातवें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं?

- 1) 20
- 2) 19



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

In a row of students Ram is 8th from the left and Madhu is 7th from the right. If there are 10 boys between them then find the total number of students of that row?

छात्रों की एक पंक्ति में राम बायें से 8वें और मधु दायें से 7वें स्थान पर हैं। यदि उनके बीच 10 लड़के हैं तो उस पंक्ति के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- 1) 24
- 2) 25
- 3) 30
- 4) 26
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

In a row of persons, position of Goku is 22nd from left end of the row and position of Rahat is 39th from the right end of the row. Find the total numbers of persons in the row?

व्यक्तियों की एक पंक्ति में, गोकू का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से 22वाँ और राहत का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से 39वाँ है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- 1) 75
- 2) 61
- 3) 69
- 4) Cannot be determined / निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- 5) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Amongst five friends, each got a different percentage of marks in the examination. Anika scored more than Alka but less than Anjali. Anjali scored 70% marks. Anamika scored less marks than only Anshika. The one who scored the minimum marks scored 65% marks and the one who scored the highest, scored 87% marks.

पांच दोस्तों में से प्रत्येक को परीक्षा में अलग-अलग प्रतिशत अंक मिले हैं। अनिका ने अलका से अधिक लेकिन अंजलि से कम अंक प्राप्त किए। अंजलि ने 70% अंक प्राप्त किए। अनामिका ने केवल अंशिका से कम अंक प्राप्त किए। न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले ने 65% अंक प्राप्त किए और जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, उसने 87% अंक प्राप्त किए।



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Amongst five friends, each got a different percentage of marks in the examination. Anika scored more than Alka but less than Anjali. Anjali scored 70% marks. Anamika scored less marks than only Anshika. The one who scored the minimum marks scored 65% marks and the one who scored the highest, scored 87% marks.

Who scored the second lowest marks?

- a) Alka
- b) Anshika
- c) Anamika
- d) Anjali
- e) Anika



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Amongst five friends, each got a different percentage of marks in the examination. Anika scored more than Alka but less than Anjali. Anjali scored 70% marks. Anamika scored less marks than only Anshika. The one who scored the minimum marks scored 65% marks and the one who scored the highest, scored 87% marks.

Who is the most likely to have scored 82% marks?

- a) Alka
- b) Anika
- c) Anamika
- d) Anshika
- e) Either Anshika or Alka



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

- (i). Seven students P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests.
- (ii). No two students get similar marks.
- (iii). V always scores more than P.
- (iv). P always scores more than Q.
- (v). Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least

(i) सात छात्र P, Q, R, S, T, U और V परीक्षाओं की एक श्रृंखला लेते हैं।

(ii) किसी भी दो छात्रों को समान अंक नहीं मिलते हैं।

(iii) V सदैव P से अधिक अंक प्राप्त करता है।

(iv) P सदैव Q से अधिक अंक प्राप्त करता है।

(v) हर बार या तो R को सबसे अधिक अंक मिलते हैं और T को सबसे कम अंक मिलते हैं, या वैकल्पिक रूप से S को सबसे अधिक अंक मिलते हैं और U या Q को सबसे कम अंक मिलते हैं।



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

- (i). Seven students P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests.
- (ii). No two students get similar marks.
- (iii). V always scores more than P.
- (iv). P always scores more than Q.
- (v). Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least

If S is ranked second, which of the following can be true ?

- a) B
- b) A
- c) E
- d) D
- e) **None Of these**



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

- (i). Seven students P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests.
- (ii). No two students get similar marks.
- (iii). V always scores more than P.
- (iv). P always scores more than Q.
- (v). Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least

If V is ranked fifth, which of the following must be true?

- a) R is ranked second.
- b) S scores the highest.
- c) Q is ranked fourth.
- d) T is ranked third.
- e) None of these



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

- (i). Seven students P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests.
- (ii). No two students get similar marks.
- (iii). V always scores more than P.
- (iv). P always scores more than Q.
- (v). Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least

If R gets most, V should be ranked not lower than :

- a) **third**
- b) **second**
- c) **fifth**
- d) **Fourth**
- e) **None of these**



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Seven persons: A, B, C, D, E, F, and G purchased some items one after another i.e., eraser, pen, TV, printer, mouse, mug, and phone but not necessary in the same order. A purchased a mouse and there is a gap of 2 persons between A and E. E didn't come first or at last. As many persons came after A are the same as the number of persons who came before F who purchased the pen. C purchased an eraser immediately before A. There is a gap of 4 persons between E and G who purchased a printer. D purchased a phone immediately before E who purchased a TV. The mug is purchased by B.

सात व्यक्ति: A, B, C, D, E, F और G ने कुछ चीजें, इरेज़र, पेन, टीवी, प्रिंटर, माउस, मग और फोन खरीदा लेकिन इसी क्रम में यह आवश्यक नहीं है। A ने एक माउस खरीदा और A और E के बीच 2 व्यक्तियों का अंतर है। E पहले या अंत में नहीं है। A के बाद आने वाले व्यक्ति और F जिसने पेन खरीदा था उसके पहले आने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। C, A से ठीक पहले इरेज़र खरीदता है। E और G जिसने प्रिंटर खरीदा है के बीच 4 व्यक्तियों का अंतर है। D ने E जिसने TV खरीदा है से ठीक पहले फोन खरीदा है। B ने मग खरीदा है।



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Seven persons: A, B, C, D, E, F, and G purchased some items one after another i.e., eraser, pen, TV, printer, mouse, mug, and phone but not necessary in the same order. A purchased a mouse and there is a gap of 2 persons between A and E. E didn't come first or at last. As many persons came after A are the same as the number of persons who came before F who purchased the pen. C purchased an eraser immediately before A. There is a gap of 4 persons between E and G who purchased a printer. D purchased a phone immediately before E who purchased a TV. The mug is purchased by B.

Who purchased the pen?

- a) B
- b) C
- c) D
- d) E
- e) F



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Seven persons: A, B, C, D, E, F, and G purchased some items one after another i.e., eraser, pen, TV, printer, mouse, mug, and phone but not necessary in the same order. A purchased a mouse and there is a gap of 2 persons between A and E. E didn't come first or at last. As many persons came after A are the same as the number of persons who came before F who purchased the pen. C purchased an eraser immediately before A. There is a gap of 4 persons between E and G who purchased a printer. D purchased a phone immediately before E who purchased a TV. The mug is purchased by B.

There is a gap of how many persons between F and G?

- a) 4
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 5



SBI CLERK 2023 (आधार बैच)

Seven persons: A, B, C, D, E, F, and G purchased some items one after another i.e., eraser, pen, TV, printer, mouse, mug, and phone but not necessary in the same order. A purchased a mouse and there is a gap of 2 persons between A and E. E didn't come first or at last. As many persons came after A are the same as the number of persons who came before F who purchased the pen. C purchased an eraser immediately before A. There is a gap of 4 persons between E and G who purchased a printer. D purchased a phone immediately before E who purchased a TV. The mug is purchased by B.

Which item has been purchased just before mug?

- a) **Printer**
- b) **Mouse**
- c) **Phone**
- d) **TV**
- e) **Eraser**



Thank
you!